



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 फाल्गुन 1935 (श०)  
(सं० पटना 304) पटना, शुक्रवार, 14 मार्च 2014

#### बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

##### अधिसूचना

13 जनवरी 2014

सं० 1915—रोहतास जिलान्तर्गत श्री राम जानकी मंदिर, शिवगंज कुटिया, डिहरी-ऑन-सोन पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक हिन्दु धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०- 2033 हैं।

इस न्यास के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु पर्षदीय आदेश पत्रांक-1297, दिनांक 25/09/12 के माध्यम से अधिनियम की धारा- 33 के तहत श्री मनोहर दास जी को इस न्यास का अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया था। श्री मनोहर दास जी ने अपने आवेदन दिनांक 11/12/12 के माध्यम से एक न्यास समिति के गठन की मांग की थी। पर्षदीय पत्रांक- 1660, दिनांक 17/12/12 के माध्यम से अंचलाधिकारी, डिहरी-ऑन-सोन, रोहतास को न्यास समिति के गठन हेतु ग्यारह सुयोग्य व्यक्तियों का नाम भेजने हेतु अनुरोध किया गया था। पर्षदीय पत्रांक-1280, दिनांक 07/10/13 एवं पत्रांक-1477, दिनांक 21/11/13 द्वारा प्रतिवेदन हेतु अंचल पदाधिकारी, डिहरी-ऑन-सोन को स्मारित किया गया। तदोपरान्त पत्रांक-1477, दिनांक 21/11/13 के अनुपालन में अंचलाधिकारी, डिहरी-ऑन-सोन ने अपने पत्रांक-1064, दिनांक 12/12/13 द्वारा प्रतिवेदन के साथ दस सदस्यों के नामों की अनुशंसा भेजी।

अतः न्यास के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक विकास के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा-32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 के अन्तर्गत में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं०-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी मंदिर, शिवगंज कुटिया, डिहरी-ऑन-सोन, जिला- रोहतास के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

##### योजना

1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री राम जानकी मंदिर न्यास योजना, शिवगंज कुटिया, डिहरी-ऑन-सोन, जिला- रोहतास” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री राम जानकी मंदिर न्यास समिति, शिवगंज कुटिया, डिहरी-ऑन-सोन, जिला- रोहतास” होगा, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्तियों की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ, तीर्थ-यात्री एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
  4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
  5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के बजट, आय-व्यय की विवरणी, अंकक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
  6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
  7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा, तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
  8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि "यदि कोई हो तो", उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
  9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
  10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
  11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- अंचलाधिकारी, डेहरी-ऑन-सोन, रोहतास द्वारा दस सदस्यों की प्रस्तावित समिति को अनुमोदित करते हुए, पर्षद द्वारा निरूपित इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक न्यास समिति गठित की जाती है:-

1. अंचलाधिकारी, डिहरी-ऑन-सोन, रोहतास	—	पदेन अध्यक्ष
2. श्री चितरंजन मिश्र साकिन- तिलौथु, रोहतास	—	कार्यकारी अध्यक्ष
3. श्री रामदेव चौधरी साकिन- निलकोठी	—	सचिव
4. श्री वंशरोपन सिंह साकिन- दरिहट	—	सदस्य
5. श्री विनोद ठाकुर साकिन- पानी टंकी, डिहरी	—	"
6. श्री श्याम मजुमदार साकिन- शिवगंज, डिहरी	—	"
7. श्री दीपक यादव साकिन- शिवगंज, डिहरी	—	"
8. श्री कामेश्वर पटेल साकिन- शिवगंज, डिहरी	—	"
9. श्री अनिल पासवान साकिन- शिवगंज, डिहरी	—	"
10. श्री राकेश दास साकिन- भकराईच, डिहरी	—	"
11. महंत मनोहर दास साकिन- शिवगंज, डिहरी	—	"

सभी निवासी- श्री राम जानकी मंदिर, शिवगंज कुटिया, डिहरी-ऑन-सोन, जिला- रोहतास।

12. न्यास-समिति, कोषाध्यक्ष का चुनाव अपने स्तर से कर, उसके अनुमोदन हेतु पर्षद के समक्ष रखेगी।
13. उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना का गजट प्रकाशन होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति के विस्तार पर यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।

विश्वासभाजन,  
किशोर कुणाल,  
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 304-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>